

```
graph TD; RBI([RBI]) --> CB[वाणिज्यिक बैंक  
(Commercial Banks)]; RBI --> COB[सहकारी बैंक  
(Cooperative Banks)]; RBI --> DB[विकास बैंक  
(Development Banks)];
```

RBI

वाणिज्यिक
बैंक
(Commercial
Banks)

सहकारी बैंक
(Cooperative
Banks)

विकास बैंक
(Development
Banks)

RBI

Commercial Banks
(वाणिज्यिक बैंक)

Cooperative Banks
(सहकारी बैंक)

Development Bank
(विकास बैंक)

Commercial Banks / Bank (वाणिज्यिक बैंक)

ये RBI से रेगुल
ले सकते हैं।

RBI से रेगुल
नहीं ले सकते हैं।

Scheduled
Bank

CRR → RBI

CRB

Themselves

← Non-Scheduled

Banks (गैर अनुसूचित
बैंक)

2nd

① RBI Act, 1934 → Schedule
(RBI अधिनियम, 1934) → दूसरी अनुसूची

② Min^m Paid-up Capital → ₹ 500
न्यूनतम प्रदत्त पूंजी

① Do not come Under
2nd Schedule of RBI Act,
② No Provision of Paid-up Capital¹⁹³⁴

Commercial Banks (वाणिज्यिक बैंक)

₹ 5000cr

Public Sector Banks (सार्वजनिक क्षेत्र बैंक)

Private Sector Banks (निजी क्षेत्र बैंक)

Regional Rural Banks (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

SBI

+5 Ass

Nationalised Banks (राष्ट्रीयकृत बैंक)

19 + IDBI → LIC
4 BMB → SBI

Private Indian Banks (निजी भारतीय बैंक)

→ ICICI
→ HDFC
→ Kotak Mah.
→ Yes
2016 → Bhandhan
→ IDFC

Private Foreign Banks

→ SCB
→ HSBC
→ RBS
→ CITI

Regional Rural Banks (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) → RRBs

Narsimham समिति

उद्देश्य (Objectives) →

- ग्रामीण क्षेत्रों में राख / रक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए
- कृषि हेतु किसानों को प्रचण उपलब्ध
- Rural Development (ग्रामीण विकास)

All the RRBs → PSB के द्वारा प्रायोजित होती हैं।
(Sponsored by any PSBs)

1st RRB → Prathama Grameen Bank. } → Syndicate Bank
Moradabad, UP.

2nd Oct. 1975

Goa & Sikkim → No RRBs

Capital Sharing → Central : Sponsored : State
Ratio Govt. Bank Govt.
(पूंजी अनुपात)
50% : 35% : 15%

SBI

1806 → First Presidency Bank (पहली प्रेसीडेंसी बैंक)

'Bank of Calcutta'

(Under British Raj)

1809 → Bank of Calcutta

'Bank of Bengal'

1840 → 2nd Presidency Bank

'Bank of Bombay'

1843 → 3rd Presidency Bank

'Bank of Madras'

1921 → Bank of Bengal + Bank of Bombay + Bank of Madras

'Imperial Bank of India'

1st July, 1955 (Gorewala समिति)

SBI

#1959 → SBI Associate Bank Act → Total 8 Banks
सह बैंक अधिनियम

#1963 → State Bank of Bikaner + State Bank of Jaipur

Associate Banks
of SBI

SBBJ

#2008 → State Bank of Saurashtra $\xrightarrow[\text{द्वारा}]{\text{Merge}}$ SBI

#2010 → State Bank of Indore $\xrightarrow[\text{द्वारा}]{\text{Merge}}$ SBI

#1st Apl. 2017 → 5 Ass. $\xrightarrow{\text{Merge}}$ SBI

SBI → H/Q → Mumbai

→ Head → Dinesh Kumar

→ World's ^{1st} ^{← here}

Top 50 Banks

Nationalised Banks (राष्ट्रीयकृत बैंक)

1969 → ₹ 50 cr. → 14 Banks
(Reserve)

Phase-I प्रथम चरण

1980 → ₹ 200 cr. → 6 Banks

Phase-II

17 - 6
11

20 Banks

1993 → 'New Bank of India'

↓ merge
PNB

19

- Dena Bank, BOB
- Vijaya

India → First Bank → 1770 → 'Bank of Hindustan' → By Europeans
↓
H/O → Kolkata
→ Second Bank → 1786 → 'General Bank of India'

सहकारी बैंक (Cooperative Banks)

Rural Cooperative Banks (ग्रामीण सहकारी बैंक)

Primary Agricultural Credit Society (PACS)
ग्रामीण स्तर

District Central Cooperative Banks
(जिला/जनपद केन्द्रीय सहकारी बैंक)
जिला स्तर

State Co. Banks
(राज्य सहकारी बैंक)
↓
Apex (उच्च)

Urban Cooperative Banks (शहरी सहकारी बैंक)

Single State Co. Bank
(केवल राज्य सहकारी बैंक)

Multi-State Co. Banks
(बहु राज्य सहकारी)

Cooperative Banks

Registration पंजीकरण

Regulation विनियमन

Control नियंत्रण

① State Cooperative Society Act
(राज्य सहकारी समाज अधिनियम)

RBI & NABARD

① RBI

Banking Law (Cooperative Society) Act, 1955

② State Registrar of Society

सहकारी समाज अधि. 1912
(or)

② Multi-State Co. Society Act, 2002
बहु राज्य सह. समाज अधि.

2020 → RBI → सभी शहरी सहकारी
बैंक & Multi-state Co. Bank
बहु-राज्य

↓
Scheduled Bank
अनुसूचित बैंक

2021 → N.S. Vishwanathan समिति

↓
सभी सरकारी बैंकों 4 श्रेणियों
वर्गीकृत करना चाहिए

- ① Tier-1 → जमाएं (Deposits) → upto ₹100Cr.
- ② Tier-2 → Deposits → ₹100Cr. - ₹1000Cr.
- ③ Tier-3 → Deposits → ₹1000Cr. - ₹10,000Cr.
- ④ Tier-4 → Deposits → ₹10000Cr. से अधिक

Commercial Banks (वाणिज्यिक बैंक)



**Scheduled Commercial
Banks**
(अनुसूचित वाणिज्यिक
बैंक)



1. Public Sector Banks
 - (a) SBI
 - (b) Nationalised Banks
2. Private Sector Banks
3. RRBs



**Non - Scheduled
Commercial Banks**
(गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक
बैंक)



Local Area Banks

NextGen PSBs

Consolidated PSBs
for strong national
presence & global reach

82% of PSB business

56% of commercial bank
business

Anchor bank	Amalgamating bank(s)	Business size*	PSB rank by size	CBS
Punjab National Bank	✓ Oriental Bank of Commerce United Bank of India	₹ 17.94 lakh cr.	2nd largest	Finacle
Canara Bank	Syndicate Bank	₹ 15.20 lakh cr.	4th largest	iFlex
Union Bank of India	Andhra Bank Corporation Bank	₹ 14.59 lakh cr.	5th largest	Finacle
Indian Bank	Allahabad Bank	₹ 8.08 lakh cr.	7th largest	BaNCS
SBI	Amalgamated earlier	₹ 52.05 lakh cr.		
Bank of Baroda	Amalgamated earlier	₹ 16.13 lakh cr.		

To strengthen
national presence

Bank	Business size*
Bank of India	₹ 9.03 lakh cr.
Central Bank of India	₹ 4.68 lakh cr.


To strengthen
regional focus

Bank	Business size*
Indian Overseas Bank	₹ 3.75 lakh cr.
UCO Bank	₹ 3.17 lakh cr.
Bank of Maharashtra	₹ 2.34 lakh cr.
Punjab and Sind Bank	₹ 1.71 lakh cr.

27

PSBs

2017



12

PSBs

Post
consolidation

* March 2019 financials

भारत में वाणिज्यिक बैंक एवं उनके कार्यालय

वाणिज्यिक बैंक (31 मार्च, 2023)

A. सार्वजनिक क्षेत्रक

(i) भारतीय स्टेट बैंक

1

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक

11

✓ (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

43

B. निजी क्षेत्रक बैंक

(i) प्राइवेट बैंक

21

(ii) पेमेण्ट बैंक

4

(iv) स्माल फाइनेन्स बैंक

12

C. विदेशी बैंक

(i) शाखाओं वाले

45

(ii) प्रतिनिधि कार्यालयों वाले

39

वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं (दिसम्बर 2022)

● भारतीय स्टेट बैंक	22380
● राष्ट्रीयकृत बैंक	61936
● निजी क्षेत्रक के बैंक	39623
● क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	21946
● विदेशी बैंक	805
● लोकल एरिया बैंक	79
● स्माल फाइनेन्स बैंक	6170
● पेमेण्ट बैंक	700

कुल

153639

RRBs in U.P.

- ① Aryavart Bank → Lucknow → BOI
- ② Boroda UP Bank → Rae Bareilly → Bank of
Boroda
- ③ Prathama UP Gramin
Bank → Moradabad → PNB